



28th July, 2020

Ref. No.: 101424/S/O/L-1/2020-21

The Manager,
Listing/Market Operation,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza,
Bandra – Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400 051

The Manager,
Corporate Relationship Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

NSE Code – ASAHIINDIA

BSE Code – 515030

Sub: Newspaper Cutting of Notice of Board Meeting

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed herewith the copy of notices, as published in Veer Arjun, New Delhi and Business Standard, all editions on 29th July, 2020 regarding notice of ensuing Board Meeting of the Company.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,
For Asahi India Glass Ltd.,


Gopal Ganatra
Executive Director
General Counsel & Company Secretary
Membership No.: F7090

Encl.: As above

Asahi India Glass Ltd.

Corporate Office: 5th, 6th & 8th Floor,
Tower-B, Global Business Park
Mehrauli - Gurgaon Road
Gurgaon- 122002 (India)
Tel.: +91 124 4062212-19
Fax: +91 124 4062244, 4062288
Corporate Identity Number: L26102DL1984PLC019542
website : www.aisglass.com

Registered Office: Unit No.203 to 208, Tribhuvan Complex,
Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi- 110065

Bank of Baroda
Branch: Jhalrapatan, Distt- Jhalawar (Raj.)

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY
"APPENDIX- IV-A [See proviso to Rule 8 (6)]"

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged to the Secured Creditor, the Physical/Constructive possession of which has been taken by the Authorised officer of Secured Creditor, will be sold on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", and "WHATEVER THERE IS" for recovery of below mentioned accounts. The details of Borrower's, Guarantor's, Secured Assets, Dues, Reserve Price, E-auction date & Time, EMD and Bid Increase Amount are mentioned below:-

Name & address of Borrowers / Guarantors:- M/s Patidar Tractors Prop. Shri Jagdish Chand Kumli S/o Shri Amar Chand Kumli (Borrower), 69, Nemi Nagar, Lal Bagh Colony, Jhalrapatan, Distt. - Jhalawar (Raj.). Shri Omprakash Patidar S/o Shri Nandlal Patidar (Guarantor), Village - Bindra, Jhalrapatan, Distt. - Jhalawar (Raj.). Shri Raghunandan Patidar S/o Shri Jagdish Chand Patidar (Guarantor), (a) 69, Nemi Nagar, Lal Bagh Colony, Jhalrapatan, Distt. - Jhalawar (Raj.) (b) Village - Gindor, Jhalrapatan, Distt. - Jhalawar (Raj.)

Total Demand Notice Date & Amount:- 12/12/2018; Rs. 61,96,687.16 as on 30/11/2018
Dues:- Present Outstanding:- Rs. 35,61,618.25 as on 09/07/2020 (inclusive of interest up to 10/06/2019) + further applicable interest, cost, charges & other expenses etc.

Status of Possession:- Physical/Constructive Possession

Property inspection date & Time:- 18/08/2020; 12.00 Noon to 04.00 PM

Give short description of the immovable properties with known encumbrances, if any	Reserve Price EMD Bid Increase Amount	Date & Time of E-auction:
Property situated at Village - Gindor Jhalrapatan, Distt. - Jhalawar (Raj.) measuring 4851 Sq. Feet in the name of Shri Raghunandan Patidar S/o Shri Jagdish Chand Patidar. Bounded by:- On the East by Road, On the West by Road, On the North by Road, On the South by House of Narendra Mohan Encumbrances:- Not known	Rs. 1,06,39,917/- Rs. 20,00,000/-	02/09/2020; 12.00 P.M. to 02.00 P.M. (With unlimited extensions of 10 min. each)
Property situated at Plot No. 69, Nemi Nagar, Lal Bagh Colony, Jhalrapatan, Distt. - Jhalawar (Raj.) measuring 1225 Sq. Feet in the name of Shri Jagdish Chand Kumli S/o Shri Amar Chand Kumli. Bounded by:- On the East by Plot No. 68, On the West by Plot No. 70, On the North by Road, On the South by Plot No. 78, Encumbrances:- Not known	Rs. 38,17,206/- Rs. 3,81,721/- Rs. 20,00,000/-	02/09/2020; 02.00 P.M. to 04.00 P.M. (With unlimited extensions of 10 min. each)

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in <https://www.bankofbaroda.in/eauction.htm> and <https://ibapi.in>. Also, prospective bidders may contact the authorised officer on Ph. No. 07432-240552 and Mobile 809407109. **Authorised Officer Bank of Baroda**

Date: 16/07/2020, Place : Jhalrapatan, Jhalawar (Raj.)

Sub: Board meeting to consider Audited Financial Result for the Quarter and Year ended 31st March, 2020.

We are pleased to inform you that meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on 31.07.2020 at S9 & S10, Merlin EBIZA, Kriparampur, Bishnupur, Near Amtala, PIN-743503, interalia, to consider, approve and take on record the Audited Financial Results for the quarter and year ended 31.03.2020 and all other matter which Board deems fit.

Place: Kolkata SDI-SOHNAN LAL AGARWAL DATE:28.07.2020 MANAGING DIRECTOR

ASAHI INDIA GLASS LIMITED
CIN: L26102DL1984PLC019542

Registered Office: Unit No. 203 to 208, Tribhuvan Complex, Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi - 110 065 Phone: (011) 49454900
Corporate Office: 5th Floor, Tower - B, Global Business Park, Mehrauli - Gurgaon Road, Gurugram - 122 002 (Haryana)
E-mail: investorrelations@aisglass.com Website: www.aisglass.com
Phone: (0124) 4062212-19 Fax No: (0124) 4062244/88

NOTICE

Pursuant to Regulation(s) 47 and 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 5th August, 2020, to inter-alia, consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the first quarter ended 30th June, 2020.

The above information is also available on Company's website - www.aisglass.com and on websites of stock exchanges i.e. NSE - www.nseindia.com and BSE - www.bseindia.com

For Asahi India Glass Ltd.,
Sd/-
Gopal Ganatra
Executive Director

Date: 28th July, 2020
Place: Gurugram
General Counsel & Company Secretary
Membership No. F7090

APPENDIX IV
[See rule 8 (1)]
POSSESSION NOTICE
(for immovable property)

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029)** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 24.01.2020 calling upon the Borrower(s) **GAURAV GOEL ALIAS GAURAV GOYAL AND PRACHI GOEL ALIAS PRACHI GOYAL ALIAS PRACHI RASTOGI** to repay the amount mentioned in the Notice being **Rs.31,43,382/- (Rupees Thirty One Lakh Forty Three Thousand Three Hundred Eighty Two Only)** against Loan Account No.HHLMER00196766 as on 24.01.2020 and interest there on within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower (s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower (s) and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 27.07.2020. The Borrower (s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED** for an amount of **Rs.31,43,382/- (Rupees Thirty One Lakh Forty Three Thousand Three Hundred Eighty Two Only)** as on 24.01.2020 and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
RESIDENTIAL PLOT/UNIT NO. 204, HAVING AREA OF 322.371 SQ.YDS (269.541 SQ.MTS) IN THE PROJECT "HERMAN CITY, MEERUT", PHASE II, VILLAGE -MALIYANA, BAGHPAT ROAD, MEERUT -250002, UTTAR PRADESH

Date : 27.07.2020
Place : MEERUT
Sd/
Authorised Officer
INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

FORM-G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

This Form G is in continuation to earlier Form G published on 26th March, 2020.

RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of the Corporate Debtor	PIYUSH COLONISERS LTD.
2. Date of incorporation of Corporate Debtor	14/07/2004
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	RoC-Delhi
4. Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U40105DL2004PLC127584
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	A16/B1, Mohan Co-Operative, Industrial Estate, Main Mathura Road, New Delhi-110044
6. Insolvency commencement date of the corporate debtor	30th September, 2019
7. Date of invitation of expression of interest	29th July 2020
8. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Detailed Eligibility Criteria is available at www.insolvencyresolution.co.in or Details can also be sought by Email at: cirppiyush@gmail.com
9. Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Detailed Eligibility Criteria is available at www.insolvencyresolution.co.in or Details can also be sought by Email at: cirppiyush@gmail.com
10. Last date for receipt of expression of interest	13th August, 2020
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	20th August, 2020
12. Last date for submission of objections to provisional list	23rd August, 2020
13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants	27th August, 2020
14. Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	23rd August, 2020
15. Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	Request should be sent by an email to: cirppiyush@gmail.com with a subject line "Request from Potential Resolution Applicant."
16. Last date for submission of resolution plans	7th September, 2020
17. Manner of submitting resolution plans to resolution professional	In sealed and signed envelope through Speed Post/ Registered Post/ courier or by hand delivering it to Mr. Umesh Garg, Resolution Professional of M/s Piyush Colonisers Ltd. and by emailing it at cirppiyush@gmail.com
18. Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	1st October, 2020
19. Name and registration number of the resolution professional	Name: Mr. Umesh Garg Registration No.: IBI/IPA-001/IP-P00135/2017-2018/10277
20. Name, Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	Name: Mr. Umesh Garg Address registered with the Board: C-334, Pocket C, Sarita Vihar, New Delhi-110076 Email id registered with the Board : umeshg0@gmail.com
21. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	Address for Correspondence: Excel Insolvency Professionals Pvt. Ltd, 115, First Floor, Devika Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 Email ID for Correspondence: cirppiyush@gmail.com
22. Further details are available at or with	Further Details is available at www.insolvencyresolution.co.in or Details can also be sought by Email at: cirppiyush@gmail.com
23. Date of publication of Form G	29th July, 2020

*180 days of Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) period expired on 28th March, 2020. After exclusion of lock down period of CIRP period of 180 days, the 180 day of CIRP period expired on 04th July, 2020. CoC has passed a resolution for Extension of CIRP period by 90 days in the CoC Meeting held on 18th March, 2020 and the application for Extension of time being I.A. No. 2849 (PB)/2020 has been filed with Hon'ble NCLT on 24th March, 2020 which is pending disposal. Thus, this Form G is being issued and published subject to orders to be passed by the Hon'ble NCLT in I.A. No. 2849 (PB)/2020.

Sd/-
Umesh Garg
Resolution Professional for M/s. Piyush Colonisers Ltd.
Reg. No.: IBI/IPA-001/IP-P00135/2017-2018/10277

Date : 28/07/2020
Place: New Delhi

Business at your finger tips

Union Bank of India
Jhalawar (aAB) - Branch,
Sharma Villa, Old Tanga Aoda, Mangalpur, Jhalawar
Ph. No. 07432-233555, Email: bn271@unionbank.co.in

Sale Notice For Sale Of Immovable Properties (see Proviso To Rule 8(6))

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with provision to Rule 8 (6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower/s and Guarantor/s, that the below described immovable property mortgaged to Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Union Bank of India, Secured Creditor, will be sold on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS" basis on 19.08.2020 Time: 11 AM to 03:00 PM, for recovery of Rs. 8,00,372.46 (Rupees Eight Lakhs Three Hundred Seventy Two and Forty Six Paise) as of 30.06.2020 with further interest and cost due to the Union Bank of India, Secured Creditor from Mrs. Avanti Bai W/o Sh. Heera Lal R/o Village & Post: Deevalkhara, Tehsil Pirawa, Distt. Jhalawar and Mr. Sanjay Kumar S/o Sh. Heera Lal R/o Village & Post: Deevalkhara, Tehsil Pirawa, Distt. Jhalawar. The reserve price will be Rs. 1,35,000.00 (Rupees One Lakh Thirty Five Thousand Only) and earnest money deposit will be Rs. 13500.00 (Rupees Thirteen Thousand Five Hundred Only). Last Date & Time of Bid Submission: 18.08.2020 Time: upto 05:00 PM. Date & Time of Inspection of Property: 12.08.2020 between 11:00 AM to 04:PM

(SHORT DESCRIPTION OF PROPERTY)
Immovable property being Land & Residential house constructed on it admeasuring 528 Sq. Ft., situated at Village Deevalkhara, Post: Samel Tehsil Pirawa District Jhalawar (Rajasthan) in the names of Mrs. Avanti Bai W/o Sh. Heera Lal and Bounded as follows: On the North:- House of Ghanshyam, on the South:- Rasta, on the East:- House of Ghanshyam Patidar, on the West:- House of Rangopal Patidar.

Encumbrances known to the Secured Creditor, if any : Nil

E Auction Agent Details: M/s E-Procurement Technologies Ltd. (Auction Tiger), Address: 704, Wall Street-II, Opp. Orient Club, Nr. Gujarat College, Ellis Bridge, Ahmedabad - 380006 Gujarat (India).
Bidder Support: 9265562821 - 079 61200 594 / 598 / 568 / 587/538
Email Address: rajasthan@auctiontiger.net, chintan.bhatt@auctiontiger.net
Website Address: <https://ubi.auctiontiger.net>
CONTACT PERSON NAME :- CHINTAN BHATT (M) 9978591888 (O) 079-61200501

For details terms and conditions of sale, please refer to the link provided in Secured Creditor's website i.e., www.unionbankofindia.co.in

This notice also is treated as notice U/R 8(6) & proviso to R 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 to the borrower/s and guarantor/s of the said loan about the holding of E-Auction Sale of the above said properties on the above mentioned date.

Date: 27.07.2020
Place: Jhalawar
Authorised Officer,
Union Bank of India

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED
Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 CIN No. U67190MH2008PLC187552

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTIES)
(As per Appendix IV read with Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notices mentioned below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.

The borrower, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules.

The borrower, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED, for an amount referred to below along with interest thereon and penal interest, charges, costs etc. from date mentioned below.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

Loan Account No.	Name of Obligor(s)/Legal Heir(s)/ Legal Representative(s)	Amount as per Demand Notice	Possession Date
9762641	Mr. Pritam Singh as Borrower & Ms. Alka Bhatt & Bigpac Solutions Pvt. Ltd as (Co-Borrower)	Rs. 1,48,40,721/- as on 21-10-2019	23-July-2020
10148526	Mr. Jahid Hussain as (Borrower) & Mrs. Gohar Begum as (Co-Borrower)	Rs. 21,24,277/- as on 22-01-2020	23-July-2020

Description of Secured Assets/Immovable Property : All that Residential Apartment/ Flat unit bearing Flat No. G-0202, Situated at 2nd floor of Building/ Tower Known as Tower-G, biza Town, Surakund Road, Faridabad, Haryana-121001. Area Admeasuring 2390 Sq. Ft. With common amenities written in the Agreement To Sale Allotment Letter.

Description of Secured Assets/Immovable Property : All that Residential Property House No. MCF 648/2, situated in land measuring 1 Kanal 7 Marla comprising of Khewat/ Khata No. 3/9, Rect. No. 29, Kila No. 18, in the area of Village Ramheda Khera, Near S.S. Convent School, Samanypur Road, Rajeev Colony, Tehsil- Balaigarh, District- Faridabad, Haryana-121004, admeasuring an area of 167 Sq. Yds.

DATE : 23-07-2020
Sd/- Authorised Officer
PLACE : FARIDABAD/HARYANA For TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED

PUBLIC NOTICE FOR AUCTION CUM SALE (APPENDIX - IV A) (Rule 8(6))

Pursuant to taking possession of the secured asset mentioned hereunder by the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL HFL) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 for the recovery of amount due from borrower/s, offers are invited by the undersigned in sealed covers for purchase of immovable property, as described hereunder, which is in the possession on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS" BASIS particulars of which are given below:-

Borrower(s) / Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of the Immovable property	Date of Physical Possession	Reserve Price
1) Mr. Kalu Ram Sain	30-Oct-2019 Rs.13,92,248/- (Rupees Thirteen Lakh Ninety Two Thousand Two Hundred Forty Eight Only)	All that part and parcel of the properties bearing Unit No. G-2, Plot No. C115, Royal City, Block C, Village Machwa, Kalwar Road, Jaipur, Rajasthan-303301 (Area-714.37 Sq.ft)	03-Jan-2020	Rs.7,00,000/- (Rupees Seven Lakh Only)
2) Mrs. Mamta Sain (Prospect No. 867575)				Total Outstanding as on date 28-July-2020: Rs.15,48,134/- (Rupees Fifteen Lakh Forty Eight Thousand One Hundred and Thirty Three Only)

Date of Inspection of property 14-Aug-2020 1100 hrs - 1400 hrs
Date for Submission of Offers /EMD Last Date 17-Aug-2020 till 5 pm.
Date/Time of Auction 18-Aug-2020 1100 hrs - 1300 hrs

Concerned Branch :- IIFL Home Finance Ltd., Ambition Tower, Plot No. D-46-B, Office No. 307 to 312, Malan Ka Chauraha, Agrasen Circle, Subhash Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan-302001 (Authorized officer: Vibhor Trivedi @ 9828038667)

- Date of inspection of the immovable property is 14-Aug-2020 between 1100 hrs - 1400 hrs.
- Last date of submission of sealed offers in the prescribed tender form along with EMD is 17-Aug-2020 till 5 pm at the branch office address.
- Date of opening of the offers for the Property is 19-Aug-2020 at the above mentioned branch office address at 1100 hrs - 1300 hrs the tender will be opened in the presence of the Authorized Officer.
- Further interest will be charged as applicable, as per the Loan Agreement on the amount outstanding in the notice and incidental expenses, costs, etc., is due and payable till its realization.
- The notice is hereby given to the Borrower and Guarantor, to remain present personally at the time of sale and they can bring the intending buyers/purchasers for purchasing the immovable property as described herein above, as per the particulars of Terms and Conditions of Sale.
- The Borrower(s)/Guarantor(s) are hereby given 15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFESI ACT, 2002 to pay the sum mentioned as above before the date of Auction failing which the immovable property will be auctioned and balance, if any, will be recovered with interest and costs. If the Borrower pays the amount due to IIFL Home Finance Limited in full before the date of sale, auction is liable to be stopped.
- The EMD shall be payable through DD in favour of "IIFL Home Finance Limited" payable at GURGAON and shall be submitted at the concerned branch/Corporate Office.
- The details/terms and conditions of the auction sale are incorporated in the prescribed tender form. Tender forms are available at the above branch office.
- The immovable property will be sold to the highest bidder. However, the undersigned reserves the absolute discretion to allow inter se bidding, if deemed necessary.
- Tenders that are not filled up or tenders received beyond last date will be considered as invalid tender and shall accordingly be rejected. No interest shall be paid on the EMD.
- Company is not responsible for any liabilities upon the property which is not in the knowledge of the company.

For further details, contact Mr. Sanjay Jha @ 956908318, Email: sanjay.jha@iifl.com, Corporate Office : Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana-122015.
Place: Jaipur Date : 29-July-2020
Sd/-Authorised Officer, IIFL Home Finance Limited

LARK TRADING AND FINANCE LIMITED
CIN: L34102UP1987PLC009222
Regd. off: C-273 Sector-63, Noida, Gauram Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201301
Telephone: 011-22159466
Email: larktradingfinance@gmail.com, Website: www.larktrading.in

Extract of the Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year Ended on March 31, 2020
(Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019	31.03.2020
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
Income				
(i) from operations	19.26	18.53	25.25	73.15
(ii) Other income	0.80	0.00	0.184	01.06
Total Income	20.06	18.53	27.09	74.21
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(20.04)	9.64	15.95	5.56
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(20.04)	9.64	15.95	5.56
Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(14.53)	7.33	12.73	4.60
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(14.53)	7.33	12.73	4.60
Equity Share Capital	526.00	526.00	526.00	526.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	-	-	-	170.39
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations)-				
1. Basic	(0.28)	0.14	0.24	0.09
2. Diluted	(0.28)	0.14	0.24	0.09

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange www.mse.in and on the website of the Company at www.larktrading.in

For Lark Trading and Finance Limited
Sd/-
(Sumit Tayal)
Whole time Director
DIN: 06598044

Date: 27/07/2020
Place: Noida

BKM INDUSTRIES LIMITED
(CIN: L27100WB2011PLC161235)
Registered Office: Bikaner Building, 3rd Floor, 8/1 Lal Bazar Street, Kolkata - 700 001
Phone No. : (033) 2243 5053, Fax : (033) 2230 0336
Email id: secretarial@bkmindustries.com, Website: www.bkmindustries.com

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

Sl. No.	Particulars	₹ (in Lakhs)		
		Quarter Ended	Year ended	Quarter ended
		31.03.2020	31.03.2020	31.03.2019
		Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	64.00	375.00	649
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra-ordinary items #)	-955.00	-3,339.00	-3166
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary items #)	-955.00	-3,339.00	-3166
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary items#)	-551.00	-2,899.00	-3071
5	Equity Share Capital	655.00	655.00	655
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	N.A.	N.A.	N.A.
7	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	Basic	-0.88	-4.46	-4.6
	Diluted	-0.88	-4.46	-4.6

The Company does not have Exceptional and Extra-ordinary items.

Key Numbers of Standalone Financial Results

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended	Year ended	Quarter ended
		31.03.2020	31.03.2020	31.03.2019
		Audited	Audited	Audited
1	Total Revenue From Operation	63.00	374.00	686.00
2	Profit Before Tax from Continuing Operation	-967.00	-3,277.00	-3,403.00
3	Profit After Tax from Continuing Operation	-563.00	-2,837.00	-3,308.00

NOTES :

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Yearly Audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Yearly Audited Financial Results is available on the website of BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and on the Company's website (www.bkmindustries.com).
- Figures for the previous periods have been regrouped and reclassified to conform to the classification of the current period, wherever considered necessary.
- The Statutory Auditors have provided un-modified audit report on the Quarterly and Annual Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) to the Company for the period ended on March 31, 2020.

By Order of the Board of Directors
For BKM Industries Limited
Sd/-
NAVNEET MANAKSIA
(Whole time Director)
Place : Kolkata
Date : 28.07.2020
DIN: 00438612

Exclusive content, hand-picked by our editors

Stay on top of your investments. Track your portfolio in real-time.

Watch the industry and companies of your choice

Curated newsletters - Market View, Personal Finance, Today's Special, BS Views

21 years of archival data

Unlimited content access from all devices

BS premium digital at ₹1499/year

For details, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

Business Standard Insight Out

[bsindia](https://bsindia.com) [bsindia](https://bsindia.com) business-standard.com

